



DCM LIMITED

Regd. Office: Unit Nos. 2050-2052, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi - 110006 E-mail: investors@dcm.in Phone: 011-41539170 CIN: L74899DL1889PLC000004

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2021 [IN TERMS OF REGULATION 47 (1) (B) OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATION, 2015]

		8		Ctand	alana.					S1	14-4-4	(Rs. In lakhs)
Sr. No.		For the quarter ended			Nine Mor	Nine Months ended For the year ended		For the quarter ended			Nine Months ended		For the year ended
NO.	Particulars	December 31, 2021	September 30, 2021	December 31, 2020	December 31, 2021	December 31, 2020	March 31, 2021	December 31, 2021	September 30, 2021	December 31, 2020	December 31, 2021	December 31, 2020 Unaudited 3,359 (1,755) (1,817) (1,855) 1,868	March 31, 2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	9	1	50	17	26	50	1,743	1,669	1,231	5,001	3,359	4,740
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax)	(275)	348	(576)	883	(1,681)	(1,997)	140	805	(577)	2,084	(1,755)	(1,741)
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax	(275)	383	(576)	918	(1,681)	(1,997)	83	796	(603)	1,965	(1,817)	(1,784)
4	Total Comprehensive Income/(Expense) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income/(Expense)]	(259)	399	(585)	966	(1,708)	(1,933)	99	813	(614)	2,014	(1,855)	(1,712)
5	Equity Share Capital	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868
6	Other equity		8.7	(e			(2,380)	3.83	1040			1	(3,774)
7	Earnings/ (loss) per equity share (EPS) of Rs. 10 each (not annualised) Basic EPS (₹) Diluted EPS (₹)	(1.47) (1.47)	2.05 2.05	(3.08) (3.08)	4.91 4.91	(9.00) (9.00)	(10.69) (10.69)	0.44 0.44	4.26 4.26	(3.23) (3.23)	10.52 10.52	(9.73) (9.73)	(9.55) (9.55)

Notes:

Place: New Delhi

Date: 11 February 2022

- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting(s) held on February 11, 2022. The Limited Review Report of the Statutory Auditors has been filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.
- The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges (i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The details in prescribed format of the results are available on the website of Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website www.dcm.in.

For and on behalf of the Board For DCM Limited Jitendra Tuli Managing Director

(Rs. in Lakhs)



INDIGO PAINTS LIMITED

(formerly known as Indigo Paints Private Limited) Registered Office: Indigo Tower, Street-5, Pallod Farm-2, Baner Road, Pune-411045, Maharashtra CIN:L24114PN2000PLC014669

Extract of unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2021

(All amounts in rupees lakhs, unless otherwise stated)

Sr.		Quarter	r ended	Nine mon	ths ended	Year ended
No.	Particulars	Dec 31, 2021 (Unaudited)	Dec 31, 2020 (Unaudited)	Dec 31, 2021 (Unaudited)	Dec 31, 2020 (Unaudited)	Mar 31, 2021 (Audited)
1	Total income from operations (net)	26,546.24	20,963.74	61,759.66	46,905.65	72,332.47
2	Net profit for the period before exceptional items *	3,283.37	2,557.62	6,687.94	6,080.12	9,790.72
3	Net profit for the period before tax *	3,283,37	2,557.62	6,687.94	6,080.12	9,790.72
4	Net profit for the period after tax *	2,430.49	1,878.48	4,946.05	4,598.99	7,085.01
5	Total comprehensive income for the period	2,427.77	1,877.92	4,937.89	4,597.29	7,074.14
6	Equity share capital	4,756.90	4,510.03	4,756.90	4,510.03	4,756.90
7	Reserves excluding revaluation reserves as at Balance Sheet date					51,592.07
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised) - Basic - Diluted	5.11 5.09	4.17 4.11	10.40 10.37	10.20 10.08	15.55 15.54

The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results is available on the Stock Exchange websites (URL: https://www.nseindia.com, https://www.bseindia.com) and also on the Company's website (URL: https://www.indigopaints.com)

For Indigo Paints Limited

MUTUAL

Net Asset Value

Sahi Hai

Place : Pune Date: February 11, 2022

Name of the Scheme / Plan / Option

Hemant Jalan Chairman & Managing Director DIN: 00080942



HDFC Asset Management Company Limited A Joint Venture with abrdn Investment Management Limited CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020. Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676 Fax: 022 22821144 • e-mail: hello@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund") has approved the following Distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Options in HDFC Arbitrage Fund, an Open-ended Scheme investing in Arbitrage Opportunities ("the Scheme") and fixed Thursday, February 17, 2022 (or the immediately following Business Day, if that day is not a Business Day) as the Record Date for the same:

Amount of Face Value

Name of the Scheme / Flatt / Option	Distribution (₹ per Unit)*	(₹ per unit)	("NAV") as on February 10, 2022 (₹ per unit)
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Regular Plan - Normal IDCW Option (Payout and Reinvestment)			10.482
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Direct Plan - Normal IDCW Option (Payout and Reinvestment)	0.040	10.00	10.840
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Regular Plan - Monthly IDCW Option (Payout and Reinvestment)	0.040	10.00	10.843
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Direct Plan - Monthly IDCW Option (Payout and Reinvestment)			10.540

The distribution will be subject to the availability of distributable surplus on the Record Date and may be lower.

Pursuant to the Distribution, the NAV of the IDCW Option(s) of the above Scheme would fall to the extent of such distribution and statutory levy, if any.

Amount will be paid, net of applicable tax deducted at source (TDS), to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme on the Record Date (including investors whose valid purchase / switch-in requests are received by the Fund and the funds are available for utilization before cut-off timings in respect of the aforesaid Scheme, on the Record date).

With regard to Unit holders who have opted for Reinvestment facility under the IDCW Option(s), the amount due (net of applicable TDS) will be reinvested, by allotting Units at the ex-Distribution NAV per Unit (adjusted for applicable stamp duty).

Unit holders are advised to opt for payout through electronic mode(s) at the earliest due to the inherent benefits of such mode(s) such as convenience of the credit of the distribution proceeds into their bank account directly as also avoiding loss of payment instruments in transit or fraudulent encashment. Please arrange to send us a copy of a cancelled cheque of your bank account to have the electronic payout mode enabled.

Intimation of any change of address / bank details should be immediately forwarded to the Investor Service Centres of the Fund (for units held in non-demat form) / Depository Participant (for units held in demat form).

In view of individual nature of tax consequences, each investor should seek appropriate advice.

For HDFC Asset Management Company Limited (Investment Manager to HDFC Mutual Fund)

Place: Mumbai Authorized Signatory Date: February 11, 2022

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

NOIDA TOLL BRIDGE COMPANY LIMITED

Regd. Office: Toll Plaza, Mayur Vihar Link Road, New Delhi - 110 091 Tel: 0120-2516495 Fax: 0120-2516440 CIN Number: L45101DL1996PLC315772 Website: www.ntbcl.com Email: ntbcl@ntbcl.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021

	70			OTAND				10		201100	LIDATED		
SI.	Particulars				ALONE			-			LIDATED		
No.			Quarter ende	ed 31.12.2020		ths ended	Year ended 31.03.2021		Quarter ende			iths ended	Year ended
				Unaudited		Unaudited	Audited			Unaudited			
6		Onaddited	Ullaudited	Ullaudited	Onaddited	Onaddited	Addited	Onaudited		Onaudited	Onadulted	Ollaudited	Addited
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Total Income from Operations	233.70	704.57	388.11	1,065.88	711.01	1,358.74	239.80	704.61	389.69	1,072.37	712.77	1,362.01
Ш	Profit/(Loss) for the period before taxation	(1,218.29)	(832.01)	(986.40)	(3,195.88)	(3,252.47)	(4,045.60)	(1,200.19)	(821.29)	(973.11)	(3,151.59)	(3,215.36)	(3,995.49)
III	Net Profit/(Loss) from Continuing operations	(1,218.29)	(832.01)	(986.40)	(3,195.88)	(3,252.47)	(4,045.60)	(1,200.19)	(821.29)	(973.11)	(3,151.59)	(3,215.36)	(3,995.49)
IV	Total Other Comprehensive Income for the period	0.60	1.27	0.42	1.80	1.26	(0.28)	0.74	1.70	0.01	2.22	0.01	(0.88)
V	Total Comprehensive Income for the period	(1,217.69)	(830.74)	(985.98)	(3,194.08)	(3,251.21)	(4,045.88)	(1,199.45)	(819.59)	(973.10)	(3,149.37)	(3,215.35)	(3,996.37)
VI	Paid-up equity share capital (Face Value Rs 10)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50
VII	Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the												
	Balance Sheet of previous year)	N//A	N//A	N//A	N//A	N//A	12,677.95	N//A	N//A	N//A	N//A	N//A	12,649.45
VIII	Earning Per Share												
	Basic	(0.65)	(0.45)	(0.53)	(1.72)	(1.75)	(2.17)	(0.64)	(0.44)	(0.52)	(1.69)	(1.73)	(2.15)
	Diluted	(0.65)	(0.45)	(0.53)	(1.72)	(1.75)	(2.17)	(0.64)	(0.44)	(0.52)	(1.69)	(1.73)	(2.15)

Notes to Financial Results

- The above results have been subjected to a limited review by the statutory auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 11, 2022. 2 The Hon'ble High Court of Allahabad had, vide its judgement dated October 26, 2016, on a Public Interest Litigation filed in 2012 (challenging the validity of the Concession Agreement and seeking the Concession Agreement
- to be quashed), directed the Company to stop collecting the user fee, holding the two specific provisions relating to levy and collection of fee to be inoperative, but refused to quash the Concession Agreement. Consequently, collection of user fee from the users of the NOIDA bridge has been suspended from October 26, 2016, against which the Company has filed an Special Leave Petition (SLP) before the Hon'ble Supreme Court of India, seeking an interim stay on the said judgement. On November 11, 2016, the Hon'ble Supreme Court issued an Interim Order denying the interim stay and sought assistance of the CAG to verify whether the 'Total Cost' of the Project in terms of the Concession Agreement

has been recovered or not by the Company. CAG has submitted its report to the Hon'ble Supreme Court and the bench has directed on September 14, 2018, that the report submitted by the CAG be kept in a sealed cover. The Special Leave Petition (SLP) still pending for final adjudication in the Hon'ble Supreme Court. The Company has also notified NOIDA that the Judgement of the Hon'ble Allahabad High Court, read with the Interim Order of the Hon'ble Supreme Court of India constitutes a 'change in law' under the Concession Agreement and submitted a detailed proposal for modification of the Concession Agreement, so as to place the Company in substantially the same legal, commercial and economic position as it was prior to the said change in law. Since NOIDA did not act on the proposal, the Company had sent a notice of arbitration to NOIDA.

The Arbitral Tribunal has been constituted and both the Company and NOIDA have submitted their claims and counter claims. Further, NOIDA had filed an application under Section 16 of the Arbitration and Conciliation Act,

1961 on the maintainability of the arbitration proceedings, which was rejected by the Arbitral Tribunal vide order dated August 10, 2018. NOIDA had filed an application in the Delhi High Court, under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1961, challenging the Arbitral Tribunal Order dated August 10, 2018, which has been disposed off by the Delhi

High Court on January 31,2019, without any relief to NOIDA.

NOIDA has also filed an application for directions before the Hon'ble Supreme Court seeking a stay on arbitral proceedings. On April 12, 2019 the Hon'ble Supreme Court directed a stay on Arbitral proceedings. On January 31, 2020, the Company filed an application for vacation of interim stay granted vide order dated April 12, 2019. In view of the outbreak of COVID-19, the functioning of the Supreme Court was limited to urgent matters only. Pursuant to the filling of letter of urgency, the matter was heard by the Hon'ble Supreme Court on September 21, 2020, October 5, 2020, November 18, 2020, January 20, 2021, March 16, 2021, April 15, 2021, July 26, 2021, August 10, 2021, September 8, 2021, October 26, 2021, November 9, 2021, December 1, 2021 and December 7,2021. Subsequently on December 9, 2021, the matter was mentioned and was heard by the

Based on a legal opinion and the Board of Directors' reliance, on the provisions of the Concession Agreement (relating to compensation and other recourses), the Company is confident that the underlying values of the intangible and other assets are not impaired.

Hon'ble Supreme Court on December 15, 2021, January 6, 2022, January 10, 2022 and January 19, 2022 and now the matter has been posted for hearing on March 29, 2022.

The Company continues to fulfil its obligations as per the Concession Agreement, including maintenance of Project Assets.

On September 20, 2021, the Company has received the assessment order from Tthe Income Tax Department u/s 143(3) r.w.s. 144B of the Income Tax Act, 1961, for Assessment Year 2018-19, wherein a demand of Rs.46.23 crores has been raised, primarily on account of valuation of land, by treating land as a revenue subsidy.

The Company on September 30, 2021, requested the Assessing Officer of Income Tax to keep the penalty proceedings in abeyance and has filed an appeal on October 19, 2021, with the Commissioner of Income Tax (Appeals), National Faceless Appeal Centre (NFAC), against the aforesaid assessment order. During December 2019 the Company has received the assessment order from Income Tax Department u/s 143(3) of the Income Tax Act, 1961, for Assessment Years 2016-17 and 2017-18, wherein a demand of Rs.357

crores and Rs 383.48 crores respectively has been raised, based on the historical dispute with the Tax Department, which is primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future, valuation of land and other recoveries. The Company has filed an appeal with the first level Appellate Authority. With the transition to Faceless Appeals, as introduced vide Faceless Appeal Scheme, 2020, both the appeals have been transferred to the NFAC. The Company has also received a Show Cause Notice, dated May 15, 2021, u/s 270A from the NFAC for Assessment Years 2016-17 and 2017-18. However, the Company has requested that the penalty proceedings be kept

in abeyance as the appeals on merits are currently pending before the Commissioner of Income Tax (Appeals) The Income Tax Department has, in earlier years, raised a demand of Rs.1,340.03 crores, which was primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future from toll and revenue subsidy on account of allotment of land. Pursuant to the receipt of order from CIT(A) on April 25, 2018, the Company has received a notice of demand from the Assessing Officer, Income Tax Department, New Delhi, in respect of

Assessment Years 2006-07 to 2014-15, giving effect to the said order from CIT (A), whereby an additional tax demand of Rs.10,893.30 crores was raised. The enhancement of the demand was primarily on account of valuation of land. The Company has filed an appeal along with the stay application with Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). The matter was heard by ITAT on December 19, 2018, January 2, 2019 and February 6, 2019 and based on NCLAT order dated October 15, 2018, ITAT adjourned the matter sine die, with directions to maintain status quo. Further, in November 2018, the CIT(A), Noida, passed a penalty order for Assessment Years 2006-07 to 2014-15, based on which the Assessing Officer Delhi, imposed a penalty amounting to Rs.10,893.30 crores in December 2018. The Company filed an appeal along with a stay application with the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). The matter was heard by the ITAT on March 29, 2019 and May 3, 2019. ITAT has adjourned the matter

sine die, with directions to maintain status quo. In terms of an affidavit filed by the Ministry of Corporate Affairs with the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) on May 21, 2019, the cut-off date of October 15, 2018 ("Cut-off date") was proposed. The Hon'ble NCLAT vide its Order dated March 12, 2020, has approved the revised Resolution Framework submitted by the New Board, along with its amendments. In the said Order, Hon'ble NCLAT has also approved October

- 15, 2018, as the Cut Off date for initiation of resolution process for IL&FS and its group companies, including the Company. Accordingly, the Company has not provided for any interest on all its loans and borrowings with effect from October 15, 2018 ("Cut-off date"). 5 The re-opening of the books of account, investigations by Serious Fraud Investigation Office ("SFIO") and other regulatory agencies and forensic examination by Grant Thornton India LLP, which is under process (PLEASE
- RECONFIRM) for certain group entities does not have any impact on the financial statements/operations of the Company. 6 The Company, on October 4, 2021, received a final Notice of Demand dated September 30, 2021, from NOIDA, wherein NOIDA raised an alleged demand of Rs 26.05 crores payable by the Company within three days of
- receipt thereof, failing which NOIDA threatened to remove all advertisement display on the NOIDA side of the DND Flyway. On receipt of the said Notice, the Company filed an interim application on October 4, 2021, before the Hon'ble Supreme Court. Based on the Letter of Urgency/ Mentioning filed by the Company, the matter was listed for hearing on October 26, 2021. Inspite of the Company informing all the developments at the Hon'ble Supreme Court to NOIDA, the NOIDA authorities unlawfully removed all the advertisement display from NOIDA side of DND Flyway on October 14, 2021. On October 26, 2021 the matter was not taken up for hearing by the Hon'ble Supreme Court due to paucity of time. The Company once again physically mentioned the urgency before the Hon'ble Supreme Court on October

28, 2021 and the matter was listed for hearing on November 9, 2021. The matter was subsequently taken up for hearing on December 1, 2021 and December 7, 2021. Subsequently, on December 9, 2021, the matter was mentioned and was heard by the Hon'ble Supreme Court on December 15, 2021, January 6, 2022 and January 10, 2022. On January 19, 2022, the Hon'ble Supreme Court disposed the interim application filed on October 4, 2021, with the direction that the Company shall be permitted to put up outdoor advertisement on payment of Rs 125 per square feet per month, in advance, subject to the outcome of the SLP of 2016 filed by the Company. During September 2018, NOIDA had served a writ of demand for an amount of Rs 3.69 crores, in relation to revenue from advertising on the NOIDA side of the DND Flyway and an additional demand (during December 2018). and April 2019) aggregating Rs 4.76 crores towards arrears of licence fee.. The Company had requested NOIDA to keep both the demands in abeyance since the matter had been referred to Arbitration by NOIDA and further no action could be taken against the Company due to the moratorium granted in view of the NCLAT order dated October 15, 2018.

After the novel coronavirus (COVID-19) outbreak was declared as a global pandemic by World Health Organization on March 11, 2020, the Government of India, followed by Government of NCT Delhi and Government of Uttar Pradesh, have, since March 16, 2020, been issuing various measures/directions/guidelines/orders. The country has also gone through a prolonged national lockdown which has significantly affected the economy. In April 2021, just as the economic activities were slowly reviving and business were starting to resume normal operations, the second wave of COVID-19 hit the country and has derailed all economic activities for the second time. Although unlike the first wave the response to the second wave has been localised. During the second wave, due to the combined effect of the curfew imposed in NCT of Delhi and Noida, there has been a significant impact on the revenue from operations (space for advertisement and the rental income from letting of office space) during the nine months ended December 31, 2021. The Company will, however, continue to closely monitor any changes in the economic conditions that may have an impact on its business and financial position.

The Company continues to exhibit resilience amid these uncertain times and the management believes that considering the Company's historical performance and liquidity, the Company will be able to mitigate the risks associated with COVID-19. During the quarter ended June 30, 2021, pursuant to the request of the Licensees seeking relief on the Licensee fee payable to the Company, in view of the second wave of Covid-19 and subsequent lockdown/curfew, the

Company has written to all authorities concerned (SDMC/EDMC/NOIDA) requesting for remission/deferment in license fees/revenue share like many other parties and the concerned authorities were understood to be considering giving relief to licensees but a final response was awaited. Accordingly, the Company has not recognized the said licensee fee and has consequently not made provision for license fees/revenue share payable to SDMC/EDMC/NOIDA, for the quarter ended June 30, 2021. 8 The Company has only one business segment and therefore reporting of segment wise information is not applicable.

9 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Reguirement) Regulation 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Company, National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.ntbcl.com, www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

10 Previous period/year figures have been regrouped / reclassified wherever necessary. Place: Noida

For and on behalf of the Board of Directors Date: Date: February 11, 2022 Director







FINANCIAL EXPRESS

PROZONE INTU PROPERTIES LIMITED CIN: L45200MH2007PLC174147 Regd. Off: 105/106, Ground Floor, Dream Square, Dalia Industrial Estate, Off New Link Road, Andheri West, Mumbai- 400 053 Website: www.prozoneintu.com Ph: +91-22-68239000

Sr.	1990 (A. V. GARA), GARAGO	(Quarter Ende	d	Nine mont	ths ended	Year Ended
No.		31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021
	200000 600 00 000 000 000	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations (net)	2,648.75	3,029.44	1,455.90	6,388.76	1,793.48	4,486.36
2	Profit / (loss) from ordinary activities before tax before share of profit of joint ventures	29.28	18.95	(984.89)	(969.49)	(4,470.98)	(4,224.64)
3	Net profit / (loss) for the period / year	(0.80)	283.30	(984.60)	(651.55)	(4,499.90)	(4,171.69)
4	Total comprehensive income / (loss) for the period / year	0.16	1,123.05	(705.38)	189.79	(4,829.26)	(4,149.97)
5	Equity Share Capital (Face Value Rs. 2/- per share)	3,052.06	3,052.06	3,052.06	3,052.06	3,052.06	3,052.06
6	Other Equity	8 8		- 45		3	45,013.21
7	Earnings Per Share	10					
- (a. Basic:	(0.09) *	0.08 *	(0.43) *	(0.34)	(1.76)	(1.81)
- 8	b. Diluted:	(0.09) *	0.08 *	(0.43) *	(0.34)	(1.76)	(1.81)

e.	E SWEAT LIEU CHILLING TO BE A TO SWEAT OF THE SWEAT		Quarter Ende	d	Nine mont	ths ended	Year Ende
Sr. No.	Particulars	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.202
	100 mg - 100	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited
1	Income from Operations	237.50	220.58	212.80	703.17	468.22	749.6
2	Profit from ordinary activities before tax	191.09	165.67	122.56	472.21	194.15	313.1
3	Net Profit for the period / year end	143.26	117.00	85.89	351.15	133.84	37.4
4	Total comprehensive income / (loss) for the period / year end	143.49	1,943.84	365.92	2,178.77	-16,449.54	-27,502.2
5	Earnings per share (Rs.) (Basic / Diluted)	0.09*	0.08*	0.06*	0.23*	0.09*	0.0

results is available on the Company's website at www.prozoneintu.com and the Stock Exchange websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com. For and on Behalf of the Board Nikhil Chaturvedi

The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended Financial Results filed with the Stock Exchanges

under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly

Managing Director Date: 11 February 2022 Place : Mumbai DIN: 00004983

ADITYA MEDISALES LIMITED **←**△→ CIN: U24230GJ1990PLC014535

402, 4 th Floor, R.K. Centre, Fatehgunj Main Road, Baroda - 390 002 Ph. No.: (91 22) 4218 1111 • Website: www.adityamedisales.com

Statement of Unaudited Financial Results for quarter ended 31st December 2021 [Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

Sr No.	Particulars	For period ended 31" December 2021 (Unaudited)	For year ended 31" March 2021 (Audited)
1	Total Income from Operations	3726.02	18772.64
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,794.55	1,662.28
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,794.55	1,662.28
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,371.77	391.79
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,06,102.65	1,01,242.83
6	Paid up Equity Share Capital	811.30	811.30
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	3,68,239.12	2,62,136.47
8	Securities Premium Account	4,372.50	4,372.50
9	Net worth	3,69,050.42	2,62,947.77
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	NA	NA
11	Outstanding Redeemable Preference Shares*		- 2
12	Debt Equity Ratio	0.39	0.62
13	Earnings Per Share of (Rs.10/- Each) (for continuing and discontinued operations)	16,91	4,83
	1. Basic and Diluted:	16.91	4.83
14	Capital Redemption Reserve		-
15	Debenture Redemption Reserve	5,000.00	5,000.00
16	Debt Service Coverage Ratio	1.18	1.12
17	Interest Service Coverage Ratio	1.17	1,11

NOTES: 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of BSE Ltd and on www.adityamedisales.com 2. For the other line items referred Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to BSE Ltd and can be accessed on

www.adityamedisales.com For and on behalf of the Board Bhushan Mehta

Date: February 11, 2022 Place: Mumbai Whole time Director

NOIDA TOLL BRIDGE COMPANY LIMITED

Regd. Office: Toll Plaza, Mayur Vihar Link Road, New Delhi - 110 091 Tel: 0120-2516495 Fax: 0120-2516440 CIN Number: L45101DL1996PLC315772 Website: www.ntbcl.com Email: ntbcl@ntbcl.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021

Ш	SI.	Particulars			STAND	ALONE					CONSO	LIDATED		
	No.	ratticulais		Quarter ende	d	Nine Mon	ths ended	Year ended		Quarter ende	d	Nine Mon	ths ended	Year ended
Ш	NO.		31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021
Ш		12	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Total Income from Operations	233.70	704.57	388.11	1,065.88	711.01	1,358.74	239.80	704.61	389.69	1,072.37	712.77	1,362.01
П	Ш	Profit/(Loss) for the period before taxation	(1,218.29)	(832.01)	(986.40)	(3,195.88)	(3,252.47)	(4,045.60)	(1,200.19)	(821.29)	(973.11)	(3,151.59)	(3,215.36)	(3,995.49)
П	Ш	Net Profit/(Loss) from Continuing operations	(1,218.29)	(832.01)	(986.40)	(3,195.88)	(3,252.47)	(4,045.60)	(1,200.19)	(821.29)	(973.11)	(3,151.59)	(3,215.36)	(3,995.49)
l	IV	Total Other Comprehensive Income for the period	0.60	1.27	0.42	1.80	1.26	(0.28)	0.74	1.70	0.01	2.22	0.01	(0.88)
li	V	Total Comprehensive Income for the period	(1,217.69)	(830.74)	(985.98)	(3,194.08)	(3,251.21)	(4,045.88)	(1,199.45)	(819.59)	(973.10)	(3,149.37)	(3,215.35)	(3,996.37)
	VI	Paid-up equity share capital (Face Value Rs 10)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50
lì	VII	Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the												
II		Balance Sheet of previous year)	N//A	N//A	N//A	N//A	N//A	12,677.95	N//A	N//A	N//A	N//A	N//A	12,649.45
	VIII	Earning Per Share												
		Basic	(0.65)	(0.45)	(0.53)	(1.72)	(1.75)	(2.17)	(0.64)	(0.44)	(0.52)	(1.69)	(1.73)	(2.15)
		Diluted	(0.65)	(0.45)	(0.53)	(1.72)	(1.75)	(2.17)	(0.64)	(0.44)	(0.52)	(1.69)	(1.73)	(2.15)
ľ	Votes	to Financial Results		f. (1)										

The above results have been subjected to a limited review by the statutory auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 11, 2022.

- The Hon'ble High Court of Allahabad had, vide its judgement dated October 26, 2016, on a Public Interest Litigation filed in 2012 (challenging the validity of the Concession Agreement and seeking the Concession Agreement to be quashed), directed the Company to stop collecting the user fee, holding the two specific provisions relating to levy and collection of fee to be inoperative, but refused to quash the Concession Agreement. Consequently, collection of user fee from the users of the NOIDA bridge has been suspended from October 26, 2016, against which the Company has filed an Special Leave Petition (SLP) before the Hon'ble Supreme Court of India, seeking an interim stay on the said judgement On November 11, 2016, the Hon'ble Supreme Court issued an Interim Order denying the interim stay and sought assistance of the CAG to verify whether the 'Total Cost' of the Project in terms of the Concession Agreemen
- has been recovered or not by the Company. CAG has submitted its report to the Hon'ble Supreme Court and the bench has directed on September 14, 2018, that the report submitted by the CAG be kept in a sealed cover. The Special Leave Petition (SLP) still pending for final adjudication in the Hon'ble Supreme Court. The Company has also notified NOIDA that the Judgement of the Hon'ble Allahabad High Court, read with the Interim Order of the Hon'ble Supreme Court of India constitutes a 'change in law' under the Concession Agreement and submitted a detailed proposal for modification of the Concession Agreement, so as to place the Company in substantially the same legal, commercial and economic position as it was prior to the said change in law. Since NOIDA did not act on the proposal, the Company had sent a notice of arbitration to NOIDA.

The Arbitral Tribunal has been constituted and both the Company and NOIDA have submitted their claims and counter claims. Further, NOIDA had filed an application under Section 16 of the Arbitration and Conciliation Act,

- 1961 on the maintainability of the arbitration proceedings, which was rejected by the Arbitral Tribunal vide order dated August 10, 2018. NOIDA had filed an application in the Delhi High Court, under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1961, challenging the Arbitral Tribunal Order dated August 10, 2018, which has been disposed off by the Delhi High Court on January 31,2019, without any relief to NOIDA.
- NOIDA has also filed an application for directions before the Hon'ble Supreme Court seeking a stay on arbitral proceedings. On April 12, 2019 the Hon'ble Supreme Court directed a stay on Arbitral proceedings. On January 31, 2020, the Company filed an application for vacation of interim stay granted vide order dated April 12, 2019. In view of the outbreak of COVID-19, the functioning of the Supreme Court was limited to urgent matters only. Pursuant to the filling of letter of urgency, the matter was heard by the Hon'ble Supreme Court on September 21, 2020, October 5, 2020, November 18, 2020, January 20, 2021, March 16, 2021, April 15, 2021
- July 26, 2021, August 10, 2021, September 8, 2021, October 26, 2021, November 9, 2021, December 1, 2021 and December 7,2021. Subsequently on December 9, 2021, the matter was mentioned and was heard by the Hon'ble Supreme Court on December 15, 2021, January 6, 2022, January 10, 2022 and January 19, 2022 and now the matter has been posted for hearing on March 29, 2022. Based on a legal opinion and the Board of Directors' reliance, on the provisions of the Concession Agreement (relating to compensation and other recourses), the Company is confident that the underlying values of the intangible and other assets are not impaired.
- The Company continues to fulfil its obligations as per the Concession Agreement, including maintenance of Project Assets. On September 20, 2021, the Company has received the assessment order from Tthe Income Tax Department u/s 143(3) r.w.s. 144B of the Income Tax Act, 1961, for Assessment Year 2018-19, wherein a demand of Rs.46.23
- The Company on September 30, 2021, requested the Assessing Officer of Income Tax to keep the penalty proceedings in abeyance and has filed an appeal on October 19, 2021, with the Commissioner of Income Tax (Appeals), National Faceless Appeal Centre (NFAC), against the aforesaid assessment order.
- During December 2019 the Company has received the assessment order from Income Tax Department u/s 143(3) of the Income Tax Act, 1961, for Assessment Years 2016-17 and 2017-18, wherein a demand of Rs.357 crores and Rs 383.48 crores respectively has been raised, based on the historical dispute with the Tax Department, which is primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future, valuation
- of land and other recoveries. The Company has filed an appeal with the first level Appellate Authority. With the transition to Faceless Appeals, as introduced vide Faceless Appeal Scheme, 2020, both the appeals have been transferred to the NFAC. The Company has also received a Show Cause Notice, dated May 15, 2021, u/s 270A from the NFAC for Assessment Years 2016-17 and 2017-18. However, the Company has requested that the penalty proceedings be kept in abeyance as the appeals on merits are currently pending before the Commissioner of Income Tax (Appeals).
- The Income Tax Department has, in earlier years, raised a demand of Rs.1,340.03 crores, which was primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future from toll and revenue subsidy on
- account of allotment of land. Pursuant to the receipt of order from CIT(A) on April 25, 2018, the Company has received a notice of demand from the Assessing Officer, Income Tax Department, New Delhi, in respect of Assessment Years 2006-07 to 2014-15, giving effect to the said order from CIT (A), whereby an additional tax demand of Rs.10,893.30 crores was raised. The enhancement of the demand was primarily on account of valuation of land. The Company has filed an appeal along with the stay application with Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). The matter was heard by ITAT on December 19, 2018, January 2, 2019 and February 6, 2019 and based on NCLAT order dated October 15, 2018, ITAT adjourned the matter sine die, with directions to maintain status quo. Further, in November 2018, the CIT(A), Noida, passed a penalty order for Assessment Years 2006-07 to 2014-15, based on which the Assessing Officer Delhi, imposed a penalty amounting to Rs.10,893.30 crores in
- December 2018. The Company filed an appeal along with a stay application with the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). The matter was heard by the ITAT on March 29, 2019 and May 3, 2019. ITAT has adjourned the matter sine die, with directions to maintain status quo. In terms of an affidavit filed by the Ministry of Corporate Affairs with the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) on May 21, 2019, the cut-off date of October 15, 2018 ("Cut-off date") was proposed. The Hon'ble NCLAT vide its Order dated March 12, 2020, has approved the revised Resolution Framework submitted by the New Board, along with its amendments. In the said Order, Hon'ble NCLAT has also approved October
- 15, 2018, as the Cut Off date for initiation of resolution process for IL&FS and its group companies, including the Company. Accordingly, the Company has not provided for any interest on all its loans and borrowings with effect from October 15, 2018 ("Cut-off date"). The re-opening of the books of account, investigations by Serious Fraud Investigation Office ("SFIO") and other regulatory agencies and forensic examination by Grant Thornton India LLP, which is under process (PLEASE RECONFIRM) for certain group entities does not have any impact on the financial statements/operations of the Company.
- The Company, on October 4, 2021, received a final Notice of Demand dated September 30, 2021, from NOIDA, wherein NOIDA raised an alleged demand of Rs 26.05 crores payable by the Company within three days of receipt thereof, failing which NOIDA threatened to remove all advertisement display on the NOIDA side of the DND Flyway. On receipt of the said Notice, the Company filed an interim application on October 4, 2021, before the Hon'ble Supreme Court. Based on the Letter of Urgency/ Mentioning filed by the Company, the matter was listed for hearing on October 26, 2021. Inspite of the Company informing all the developments at the Hon'ble Supreme Court to NOIDA, the NOIDA authorities unlawfully removed all the advertisement display from NOIDA side of DND Flyway on October 14, 2021.
- On October 26, 2021 the matter was not taken up for hearing by the Hon'ble Supreme Court due to paucity of time. The Company once again physically mentioned the urgency before the Hon'ble Supreme Court on October 28, 2021 and the matter was listed for hearing on November 9, 2021. The matter was subsequently taken up for hearing on December 1, 2021 and December 7, 2021. Subsequently, on December 9, 2021, the matter was mentioned and was heard by the Hon'ble Supreme Court on December 15, 2021, January 6, 2022 and January 10, 2022. On January 19, 2022, the Hon'ble Supreme Court disposed the interim application filed on October 4. 2021, with the direction that the Company shall be permitted to put up outdoor advertisement on payment of Rs 125 per square feet per month, in advance, subject to the outcome of the SLP of 2016 filed by the Company. During September 2018, NOIDA had served a writ of demand for an amount of Rs 3.69 crores, in relation to revenue from advertising on the NOIDA side of the DND Flyway and an additional demand (during December 2018). and April 2019) aggregating Rs 4.76 crores towards arrears of licence fee.. The Company had requested NOIDA to keep both the demands in abevance since the matter had been referred to Arbitration by NOIDA and further
- no action could be taken against the Company due to the moratorium granted in view of the NCLAT order dated October 15, 2018. After the novel coronavirus (COVID-19) outbreak was declared as a global pandemic by World Health Organization on March 11, 2020, the Government of India, followed by Government of NCT Delhi and Government of Uttar Pradesh, have, since March 16, 2020, been issuing various measures/directions/guidelines/orders. The country has also gone through a prolonged national lockdown which has significantly affected the economy. In April 2021, just as the economic activities were slowly reviving and business were starting to resume normal operations, the second wave of COVID-19 hit the country and has derailed all economic activities for the second time. Although unlike the first wave the response to the second wave has been localised. During the second wave, due to the combined effect of the curfew imposed in NCT of Delhi and Noida, there has been a significant impact on the revenue from operations (space for advertisement and the rental income from letting of office space) during the nine months ended December 31, 2021. The Company will, however, continue to closely monitor any changes in the economic conditions that may have an impact on its business and financial position.
- The Company continues to exhibit resilience amid these uncertain times and the management believes that considering the Company's historical performance and liquidity, the Company will be able to mitigate the risks
- During the guarter ended June 30, 2021, pursuant to the request of the Licensees seeking relief on the Licensee fee payable to the Company, in view of the second wave of Covid-19 and subsequent lockdown/curfew, the Company has written to all authorities concerned (SDMC/EDMC/NOIDA) requesting for remission/deferment in license fees/revenue share like many other parties and the concerned authorities were understood to be considering giving relief to licensees but a final response was awaited. Accordingly, the Company has not recognized the said licensee fee and has consequently not made provision for license fees/revenue share payable to SDMC/EDMC/NOIDA, for the guarter ended June 30, 2021.
- The Company has only one business segment and therefore reporting of segment wise information is not applicable.

crores has been raised, primarily on account of valuation of land, by treating land as a revenue subsidy.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Reguirement) Regulation 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Company, National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.ntbcl.com, www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively.

10 Previous period/year figures have been regrouped / reclassified wherever necessary.

Place: Noida

Date: Date: February 11, 2022

financialexp.epapr.in

For and on behalf of the Board of Directors Director

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004

No.: JDA/EE&TA to Dir.Engg.-II/2021-22/D-30 Date: 11.02.2022

NOTICE INVITING BID

NIB No.: EE & TA to Dir. Engg.-II/37/2021-22 Bids are invited for works given below in various zones as per details given below :-

S. No.	Zone	UBN No.	Cost of Work (Lacs)	A&F	Nature of Work	Last Date
1.	EE- ElecIII	JDA2122WSOB00573	307.59	260/ 2020-21	Electrification and Street Light Work	03.03.2022
2.	EE- ElecIV	JDA2122WSOB00578	275.50	NR 014/ 2019-20	SITC of Elevator in R.I.C.	07.03.2022

Details are available at Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.urban.rajasthan.gov.in Executive Engineer & TA to Dir. Engg.-II Rai. Samwad/C/2021-22/11615



INDIGO PAINTS LIMITED

(formerly known as Indigo Paints Private Limited) Registered Office: Indigo Tower, Street-5, Pallod Farm-2, Baner

Road, Pune-411045, Maharashtra CIN: L24114PN2000PLC014669

Extract of unaudited financial results

for the quarter and nine months ended December 31, 2021

(All amounts in rupees lakhs, unless otherwise stated) Nine months ended Quarter ended

Sr.		Quarte	i choco	Nine mot	mis chided	Tear chucu
No.	Particulars	Dec 31, 2021 (Unaudited)	Dec 31, 2020 (Unaudited)	Dec 31, 2021 (Unaudited)	Dec 31, 2020 (Unaudited)	Mar 31, 2021 (Audited)
1	Total income from operations (net)	26,546.24	20,963.74	61,759.66	46,905.65	72,332.47
2	Net profit for the period before exceptional items *	3,283.37	2,557.62	6,687.94	6,080.12	9,790.72
3	Net profit for the period before tax *	3,283.37	2,557.62	6,687.94	6,080.12	9,790.72
4	Net profit for the period after tax *	2,430.49	1,878.48	4,946.05	4,598.99	7,085.01
5	Total comprehensive income for the period	2,427.77	1,877.92	4,937.89	4,597.29	7,074.14
6	Equity share capital	4,756.90	4,510.03	4,756.90	4,510.03	4,756.90
7	Reserves excluding revaluation reserves as at Balance Sheet date					51,592.07
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised) - Basic - Diluted	5.11 5.09	4.17 4.11	10.40 10.37	10.20 10.08	15.55 15.54

There are no extraordinary items in any of the period disclosed above.

The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results is available on the Stock Exchange websites (URL: https://www.nseindia.com, https://www.bseindia.com) and also on the Company's website (URL: https://www.indigopaints.com) For Indigo Paints Limited

Hemant Jalan

Place: Pune Chairman & Managing Director Date: February 11, 2022 DIN: 00080942



Mrs. Bectors Food Specialities Limited Regd. Office: Theing Road, Phillaur, Jalandhar-144410

Corporate Identity Number (CIN): L74899PB1995PLC033417, PAN: AABCM9495K Website: www.cremica.in, Email: cs.bis@cremica.in

Extract of Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter & Nine months ended 31st December 2021 (Rs. in million except per share data) Sr Particulars Nine months ended Quarter ended Year ended

NO		31.12.2021 (Un-Audited)	30.09.2021 (Un-Audited)	31.12.2020 (Un-Audited)	31.12.2021 (Un-Audited)	31.12.2020 (Un-Audited)	31.03.2021 (Audited)
1	Total Income from Operations	2,463.68	2,364.79	2,138.21	6,982.48	6,356.98	8,476.05
2	Net Profit Before Tax for the period	176.25	256.92	250.43	592.52	756.66	910.77
3	Net Profit after tax for the period	130.97	202.84	186.97	452.28	564.22	678.20
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	130.82	202.68	184.80	451.82	557.71	677.59
5	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- per share)	588.15	587.97	587.47	588.15	587.47	587.47
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet at 31st March 2021						3,556.96
7	Earnings Per Share (in Rs) (non annualised):	1888	7570	25000	9246	8000	U Section
	Basic:	2.22	3.45	3.25	7.69	9.84	11.76
	Diluted:	2.22	3.45	3.25	7.69	9.83	11.75

Extract of Un-audited Consolidated Financial Results for the Quarter & Nine months ended 31st December 2021 (Rs. in million except per share data)

Sr	Particulars		Quarter ended	1	Nine mon	ths ended	Year ended
No		31.12,2021 (Un-Audited)	30.09.2021 (Un-Audited)	31.12.2020 (Un-Audited)	31.12.2021 (Un-Audited)	31.12.2020 (Un-Audited)	31.03.2021 (Audited)
1	Total Income from Operations	2,648.51	2,479.02	2,269.72	7,406.63	6,655.27	8,908.52
2	Net Profit Before Tax for the period	208.63	242.80	276.87	630.70	797.64	970.73
3	Net Profit after tax for the period	155.10	180.90	206.74	469.41	595.09	722.76
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	155.02	180.80	204.55	469.15	588.50	722.39
5	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- per share)	588.15	587.97	587.47	588.15	587.47	587.47
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet at 31st March 2021						3,724.95
7	Earnings Per Share (in Rs) (non annualised): Basic:	2.64	3,08	3.60	7.98	10.38	12.53

Diluted:

1. The above unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors on 11 February 2022. These results have been subjected to limited review by the statutory auditors of the Group. The review report of the Statutory Auditors is being filed with the BSE and National Stock Exchange. For more details on unaudited financial results, visit investors section in the business & collaborations link of our website www.cremica.in and financials results at corporate section at www.bseindia.com and

3.08

3.60

2.64

- The Group is engaged in the single operating segment "food products".
- 3. The Company completed its Initial Public Offer (IPO) of 18,769,701 equity shares of face value of Rs. 10/- each for cash at an issue price of Rs. 288/- per equity share aggregating to Rs. 5,405.40 million, consisting fresh issue of 1,408,592 equity shares aggregating to Rs 405.40 million and an offer for sale of 17,361,109 equity shares aggregating to Rs. 5,000 million by the selling shareholders. The equity shares of the Company were listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited on 24 December 2020. The Company incurred Rs. 195.34 million as an IPO related expense (excluding taxes) which were proportionately allocated between the selling shareholders and the Company as per respective offer size. The Company's share of these expenses (excluding taxes) of Rs 22.71 million has been adjusted against securities premium.

The utilisation of IPO proceeds out of fresh issue is summarized below:

Unutilized amount as on Utilization upto 31 December 2021 31 December 2021 59.45 345.95 345.95

10.37

12.52

(Rs. In million)

Total fresh proceeds 405.40 59.45

- IPO proceeds which were unutilized as at 31 December 2021 were temporarily invested in deposits with banks. The Group and its associate has taken into account the possible impact of Covid-19 in preparation of these financial results. including its assessment of the recoverable value of its assets based on the internal and external information up to the date of approval of these results and current indicators of future economic conditions.
- 6. The unaudited consolidated financial results include the financial results of the Company and the financial results of the following subsidiaries (collectively referred as 'the Group') and an associate:

Object of the issue as

per Prospectus

405.40

Particulars

extension project

a) Bakebest Foods Private Limited - Incorporated in India

Financing the project cost towards Rajpura

b) Mrs. Bectors English Oven Limited - Incorporated in India c) Mrs. Bectors Food International (FZE) - Incorporated in UAE on 14 September 2021

a) Cremica Agro Foods Limited - Incorporated in India

7. The Holding Company has allotted 18,788 equity shares of Rs. 10/- each for the guarter ended 31 December 2021, under the Company's Employees Stock Option Scheme-2017 at an exercise price of Rs. 174.62.

> For and on behalf of Board of Directors of Mrs. Bectors Food Specialities Limited

Anoop Bector Managing Director

Place: Phillaur

Date: 11 February, 2022

DIN: 00108589

प्रपत्र-'जी' अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेत् आमंत्रण भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन प्रासंगिक विवरण शूज ऑन लूज प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट देनदार का नाम कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि 07 सितंबर 2016 प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज—दिल्ली निगमित / पंजीकृत है कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान U63030DL2016PTC305536 संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या कार्पोरेट देनदार के पंजीकत कार्यालय 177, दूसरी मंजिल, आधारशिला गौतम नगर, तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता नई दिल्ली-110049 कार्परिट देनदार की ऋण शोध अक्षमता 30 नवंबर 2021 आरंभन की तिथि। अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि 12 फरवरी 2022 सहिता की घारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान अभिरुचि की अभिव्यक्ति के विस्तृत आमंत्रण में पात्रता मानदंड का उल्लेख किया गया है और इसे आवेदकों की ग्राह्मता dhupar.solpl@gmail.com पर ईमेल भेजकर रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल से प्राप्त किया जा सकता है। आईबीबीआई की वेबसाइट (https://ibbi.gov.in/legal-धारा 29क के अधीन लागू अग्राह्मता के मानदंख: framework) पर उपलब्ध है और विस्तृत अभिरुधि की अभिव्यक्ति में भी दिया गया है। अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेत् अंतिम तिथि | 28 फरवरी 2022 संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सची 10 मार्च 2022 जारी करने की तिथि अतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने 15 मार्च 2022 हेत अंतिम तिथि संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची 25 मार्च 2022 जारी करने की तिथि संभावित समाधान आवेदकों को सुचना झापन, 15 मार्च 2022 मृत्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेत् अनुरोध जारी करने की तिथि समाधान योजना, मृल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना तमाधान प्रोफेशनल से ईमेल: द्रापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त dhupar.solpl@gmail.com पर इसकी मांग करके, पात्र करने की विधि संभावित समाधान आवेदकों के साथ सूचना इलेक्ट्रोंनिक रूप / वर्ष् अल डेटा रूम में साझा की जाएगी। समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि पोस्ट द्वारा एक सीलबंद लिफाफे में 🗸 व्यक्तिगत रूप समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने से और साथ ही डिजिटल प्रतिलिपि एक पेन—ड्राइव में दोनों संपादन योग्य और गैर-संपादन योग्य प्रारूपों (पासवर्ड सुरक्षित) में समाधान प्रोफेशनल के लिए B. निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि . समाचान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्टेशन मदन मोहन धूपर पंजी.सं.:IBBI/IPA-002/IP-N00860/2019-2020/12768 समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-- मेल मदन मोहन धूपर पताः पलेट नं.301, ग्रेसियस टॉवर, एसपीआर इम्पीरियल जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है खटेट, सैक्टर 82, फरीदाबाद, हरियाणा—121004 ईमेल : dhuparmm@gmail.com पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के एवीएम समाधान प्रोफेशनल एलएलपी साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है 8 / 28, तीसरी मंजिल, डब्ल्यू ई.ए., अब्दुल अजीज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005 ईमेल : dhupar.solpl@gmail.com अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है समाधान प्रोफेशनल से dhupar.solpl@gmail.com ईमेल द्वारा मांगा जा सकता है। 12 फरवरी 2022 ³ प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि हस्ता /-मदन मोहन धूपर तिथि: 12 फरवरी 2022 समाधान प्रोफेशनल, शुज ऑन लुज प्राइवेट लिमिटेर स्थानः फरीदाबाद, हरियाणा

पंजीकरण सं.:IBBI/IPA-002/IP-N00860/2019-2020/12768

पलेट नं.301, ग्रेसियस टॉवर, एसपीआर इम्पीरियल एस्टेट, सैक्टर 82, फरीदाबाद, हरियाणा-121004

न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड कार्यालयः न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड, 601—608, छठी मंजिल, डीएलएफ टॉवर शिवाजी मार्ग, मोती नगर, नई दिल्ली—110015 ई—मेल:info@newhabitat.in, वेबः www.newhabitat.in, मो.: +91-9999694526

ई-नीलामी बिक्री सुचना वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृत हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत NBFC/HFC के प्रभारित चल/अचल आरितयों की बिक्री न्यू हैबिटैंट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेंड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अद्योहरताक्षरी ने निम्नलिखित संपत्ति को कब्जा ले लिया है। व्यापक रूप से आम लोगों को सूचित किया जाता है कि NBFC/HFC बकाया की वसूली हेत् निम्नवर्णित मामले में प्रभारित संपत्तियों की ई-नीलामी (सरफासी अधिनियम 2002 के अंतर्गत) "जैसा है जहां है आधार, जैसा है वैसा ही आधार है, और जो कुछ भी है" के आधार पर की जाएगी।

क. सं.	कर्जदारों का नाम	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य घरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि व समयः समय : 60 मिनट	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए संपत्ति बेची जा रही है।
1.	श्रीमती नितिका जैन और श्रीमती संतोष जैन	मकान सं. 385, खसरा सं. 3136/2568/704 में सं, महारथी कॉलोनी, ज्वाला नगर, शाहदरा, दिल्ली–110032, एरिया 1076 वर्ग फुट लगभग (भीतिक कब्जा के अंतर्गत)	₹.21,50,000.00 ₹. 2,15,000.00 ₹. 25,000/-	16/03/2022 पूर्वा 11.00 बजे से दोपडर 12 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	रु. 58,02,209.00 दिनांक : 11/02/2022
	हरमजन सिंह. ऋण खाता सं- H S G / N / H E A / N O I /0816/0024	बिना छत के अधिकारों के प्रथम तल, संपत्ति सं डब्ल्यू जेड-5, गांव केशोपुर, पृथ्वी पार्क, तिलक नगर नई दिल्ली-110018, एरिया 540 वर्ग फुट/80 वर्ग गज लगमग। (मीतिक कब्जा के अंतर्गत)	₹. 24,75,000.00 ₹. 2,47,500.00 ₹. 25,000/-	16/03/2022 पूर्वा 11.00 बजे से दीपहर 12 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	रु. 38,92,565.00 दिनांक : 11/02/2022
3.	श्री मंजीत सिंह अरोड़ा और श्रीमती मनदीय कौर, ऋण खाता सं HSG/N/ HEA/NSP/0118/0010	दिल्ला-110068 के पुरान लाल ढारा म	₹. 34,50,000.00 ₹. 3,45,000.00 ₹. 35,000/-	16/03/2022 पूर्वी 11.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	रु. 36,72,307.00 दिनांक : 11/02/2022

ईएमडी तथा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि : 15-03-2022 का अप. 4.00 बजे तक पंपत्तियों की निरिक्षण की तिथि व समय : 04-03-2022 को पूर्वा.11.00 से अपी. to 4.00 के बीच प्रन्य जानकारी हेत समपर्क करें : श्री रवि कमार (प्राधिकत अधिकारी) - 9999694526 ई−नीलामी की नियम एव शतें:

. यह नीलागी बैंक के अनुगोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टैक्नोलॉजी लि. Auction Tiger (सम्पर्क: 6351896834, 079-68136855/854,079-61200594/558 के माध्यम से वेबपोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net पर ऑनलाईन "जैसा है जहां है आधार, जैस है वैसा ही आधार है, और जो कुछ भी हैं" के आधार पर संचालित की जायेगी। नीतीश झा— 07982880393 प्रधान कार्यालय संपर्क व्यक्ति राम शर्मा – 8000023297, 6351896834 पुष्पित मारू – 6351896834, ईमेल पता -pushpit@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, ncit@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net. ऑनलाईन नीलामी बिकी के अंतर्गत ई—नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणपत्र, समान्य नियम व शर्त आदि निविदा दस्तावेज इन वेबपोर्टल साईट https://sarfaesi.auctiontiger.net 2. अद्योहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार संपत्ति पर कोई प्रभार नहीं है। यथापि इच्छक बोलीदाताओं को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी संपत्ति के स्वामित्व तथा संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के संबंध स्वतन्त्र जांघ, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी घाहिए ई- नीलामी विद्वापन एनबीएफसी / एवएफसी की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता / वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न ही कोई वचनबद्धता / प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा। संपत्ति की बिकी एनबीएफसी / एचएफसी को ज्ञात या अज्ञात वर्तमान विद्यमान एवं मावी प्रभारों / ऋणभारों के साथ की जा रहीहै। प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभृत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 3. भावी बोलीदाता घरोहर राशि एनईएफटी / आरटीजीएस / ढीढी / स्थानांतरण के रूप में **खाता संख्या 00000036728174634**, लामार्थी न्यू **हैबिटैट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट** लिमिटेड के नाम पर, भारतीय स्टेट बैंक, एसएमई शाखा, आसफ अली रोब(62203), आई एफ एस सी कोड : SBIN0062203 में जमा करें। 4. यह ई—मीलामी वेतीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभृत हित प्रवर्तन अधिनियम–2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों / शर्तों के अनुसार की जायेगी। 5 सफल बोदलदाता को बिक्री पर विचार हेतु रखा जाएगा। और उसी को बिक्री मृत्य के लिए समायोजित किया जाएगा और असफल बोलीदाता की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं होगा। 6. सफल बोलीदाता बिकी का 25% प्रतिशत बोली राशि (ईएमडी सहित) उसी दिन जमा करना होगा उसके / उनके पक्ष में बिकी की तारीख से 15 दिनों के भीतर बोली राशि का 75% प्रतिशत राशि का जमा करना होगा। 7. निर्धारित समय के भीतर सफल बोलीदाता 'नीलामी खरीदार द्वारा राशि के भूगतान में डिफॉल्ट के मामले में, बिकी को रद्र कर दिया जाएगा और पहले से भूगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली गएगी और संपत्ति फिर से बिकी के लिए डाल दी जाएगी और डिफॉल्ट हो जाएगी संपत्ति ∕ राशि के संबंध में बोली लगाने वाले का कोई दावा ∕ अधिकार नहीं होगा। 8. प्राधिकृत अधिकारी / NHHFDL उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी को स्वीकार या अस्वीकार करने का या सभी प्रस्तावं ही ई−नीलामी को स्थगित ∕ रद या बिना किसी कारण बताए किसी भी स्तर पर नीलामी की कार्यवाही से किसी भी संपत्ति को वापस करने का पूर्ण अधिकार स्थता है। 9. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है। 10. ई नीलामी के अन्य नियम व शर्ते निम्नलिखित वेबसाईटों पर प्रकाशित की गई है। https://sarfaesi.auctiontiger.net और www.newhabitat.in

तिथि: 13/02/2022, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड

पंजी. कार्याः टोल प्लाजा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली-110091

टेली.: 0120-2516495, फैक्स: 0120-2516440

CIN. No: L45101DL1996PLC315772; वेबसाईट: www.ntbcl.com,

ईमेलः ntbcl@ntbcl.com

31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही का अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम

(रु. लाख में)

	विवरण	स्टैण्डएलोन				समीकत							
क्रम		समाप्त तिमाही			समाप्त नौमाही समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त नौमाही		समाप्त वर्ष	
सं.		31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021	31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.03.2021
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Ι	प्रचालनों से कुल आय	233.70	704.57	388.11	1,065.88	711.01	1,358.74	239.80	704.61	389.69	1,072.37	712.77	1,362.01
II	कराधान के पूर्व अवधि हेतु लाभ	(1,218.29)	(832.01)	(986.40)	(3,195.88)	(3,252.47)	(4,045.60)	(1,200.19)	(821.29)	(973.11)	(3,151.59)	(3,215.36)	(3,995.49)
III	कर पश्चात अवधि हेतु लाभ	(1,218.29)	(832.01)	(986.40)	(3,195.88)	(3,252.47)	(4,045.60)	(1,200.19)	(821.29)	(973.11)	(3,151.59)	(3,215.36)	(3,995.49)
IV	कुल अन्य व्यापक आय	0.60	1.27	0.42	1.80	1.26	(0.28)	0.74	1.70	0.01	2.22	0.01	(0.88)
V	अवधि हेतु कुल व्यापक आय	(1,217.69)	(830.74)	(985.98)	(3,194.08)	(3,251.21)	(4,045.88)	(1,199.45)	(819.59)	(973.10)	(3,149.37)	(3,215.35)	(3,996.37)
	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (रु. 10 प्रत्येक का अंकित मूल्य)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50
	आरक्षिति (गत वर्ष के तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर)	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	12,677.95	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	12,649.45
	आय प्रति शेयर बेसिक डाइल्यूटेड	(0.65) (0.65)	(0.45) (0.45)	(0.53) (0.53)	(1.72) (1.72)	(1.75) (1.75)	(2.17) (2.17)	(0.64) (0.64)	(0.44) (0.44)	(0.52) (0.52)	(1.69) (1.69)	(1.73) (1.73)	(2.15) (2.15)

टिप्पणी तथा वित्तीय परिणाम

. उपरोक्त परिणाम कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अध्यधीन रहे जिनकी ऑडिट किमटी द्वारा की गई तथा 11 फरवरी, 2022 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये।

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 26 अक्टबर 2016 के अपने फैसले में 2012 में दायर एक जनहित याचिका पर (रियायत समझौते की वैधता को चुनौती देते हुए और रियायत समझौते को रद्द करने की मांग करते हुए) कंपनी को निर्देश दिया था कि शुल्क वसूलने और संग्रह करने से संबंधित दो विशिष्ट प्रावधानों को निष्क्रिय मानते हुए, उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करना बंद करें, लेकिन रियायत समझौते को रद्द करने से इनकार कर दिया। नतीजतन, नोएडा ब्रिज के उपयोगकर्ताओं से उपयोगकर्ता शल्क का संग्रह 26 अक्टूबर 2016 से निलंबित कर दिया गया है जिसके विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक स्पेशल लीव एप्लीकेशन (एसएलपी) दायर की गई है जिसमें उक्त फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। 11 नवम्बर, 2016 को अपने अंतरिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन से इंकार कर दिया लेकिन, यह पता लगाने के लिये सीएजी की सहायता मांगी कि क्या रियायत अनुबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना की कुल लागत कम्पनी द्वार

वसूल कर ली गयी है या नहीं। सीएजी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंप दिया है। 14 सितम्बर, 2018 को अपनी अंतिम सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सीएजी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट मुहरबंद लिफाफे में रखी जाये। विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। कंपनी ने नोएडा को भी अधिसूचित कर दिया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के साथ पठित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला रियायत अनुबंध के अंतर्गत 'कानुन में परिवर्तन' का गठन करता है तथा रियायत अनुबंध के सुधार के लिये एक विस्तृत प्रस्ताव जमा किया ताकि उसे उसी रूप में विधिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक हैसियत में स्थापित किया जाये जो कानून के उक्त परिवर्तन से पूर्व में था। चुंकि, नोएडा ने इस प्रस्ताव पर कार्य नहीं किया, कम्पनी ने नोएडा के पास विवाचन की एक नोटिस भेजी थी।

विवाचन अधिकरण का गठन कर लिया गया है तथा दोनों कंपनी एवं नोएडा ने अपने दावे तथा प्रति दावे जमा किये हैं। आगे, नोएडा विवाचन कार्यवाही की मैन्टनैबिलिटी पर धारा 16 के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया है जिसे आदेश तिथि 10 अगस्त, 2018

द्वारा विवाचन अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया। नोएडा ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1961 की धारा 34 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें 10 अगस्त, 2018 के मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोएडा को बिन

किसी राहत के 31 जनवरी, 2019 को निपटा दिया था। नोएडा ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विवाचन कार्यवाहियों के लिए एक आवेदन दाखिल किया है। 12 अप्रैल, 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाचन कार्यवाहियों पर स्टे का निर्देश दिया।

31 जनवरी,2020 को, कंपनी ने 12 अप्रैल, 2019 के आदेश के तहत दिए गए अंतरिम स्थगन की छुट्टी के लिए एक आवेदन दायर किया। कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट का कामकाज केवल अत्यावश्यक मामलों तक ही सीमित था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 21 सितंबर, 2020, 5 अक्टूबर, 2020, 18 नवंबर, 2020, 20 जनवरी, 2021, 16 मार्च, 2021, 15 अप्रैल, 2021, 26 जुलाई, 2021, 10 अगस्त, 2021, 8 सितंबर, 2021, 26 अक्टूबर, 2021 और 9 नवंबर, 2021 और 1 दिसंबर, 2021 को अत्यावश्यक पत्र दाखिल करने के अनुसरण में मामले की सुनवाई की गई। बाद में 9 दिसम्बर, 2021 को मामले का उल्लेख किया गया और 15 दिसम्बर, 2021, 6 जनवरी, 2022, 10 जनवरी, 2022 तथा 19 जनवरी, 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सनवाई की गयी और अब मामले को सनवाई हेत 29 मार्च, 2022 को पोस्ट कर दिया गया है।

विधिक ओपिनियन और निदेशक मंडल की निर्भरता के आधार पर, कंसेशन एग्रीमेंट (क्षतिपूर्ति एवं अन्य रिकोर्स से सम्बन्धित) के प्रावधानों पर, कंपनी को विश्वास है कि अमूर्त और अन्य संपत्तियों के अंतर्निहित मूल्य प्रभावित नहीं होते हैं। कम्पनी परियोजना आस्तियों के रखरखाव सिहत कंसेशन एग्रीमेंट के अनुसार अपने दायित्व को पूर्ण करती रहेगी।

3. 20 सितंबर, 2021 को, कंपनी को निर्धारण वर्ष 2018-19 हेतु आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144बी के साथ पठित आयकर विभाग से धारा 143(3) के तहत निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से भूमि के मुल्यांकन के कारण, भूमि को राजस्व सब्सिडी मानने के कारण 46.23 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

कंपनी ने 30 सितंबर,2021 को आयकर के निर्धारण अधिकारी से दंड की कार्यवाही को रोके रखने का अनुरोध किया और 19 अक्टूबर,2021 को आयकर आयुक्त (अपील), राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (एनएफएसी) के पास उक्त निर्धारण आदेश के विरूद्ध एक

दिसंबर 2019 के दौरान कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत आयकर विभाग से निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 हेतु निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें क्रमशः 357 करोड़ रुपये और 383.48 करोड़ रुपये की मांग की गई है कर विभाग के साथ ऐतिहासिक विवाद पर आधारित है, जो मुख्य रूप से भविष्य में वसूल की जाने वाली निर्दिष्ट रिटर्न की बकाया राशि, भूमि के मुल्यांकन और अन्य वसूलियों के कारण है। कंपनी ने प्रथम स्तर के अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर की है

फेसलेस अपील में संक्रमण के साथ, जैसा कि फेसलेस अपील योजना, 2020 के तहत पेश किया गया था, दोनों अपीलों को एनएफएसी में स्थानांतरित कर दिया गया है। कंपनी को नि.व. 2016-17 और नि.व. 2017-18 के लिए एनएफएसी से एक कारण बताओ नोटिस, दिनांक 15 मई,2021, धारा 270ए के तहत प्राप्त हुआ है। हालांकि, कंपनी ने अन्रोध किया है कि दंड की कार्यवाही को स्थगित रखा जाए क्योंकि योग्यता के आधार

पर अपील वर्तमान में आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है। आयकर विभाग ने पहले के वर्षों में 1,340.03 करोड रुपये की मांग की है, जो मुख्य रूप से भृमि के आवंटन के कारण टोल और राजस्व सब्सिडी से भविष्य में वसल किए जाने वाले नामित रिटर्न के बकाया के कारण था। 25 अप्रैल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश प्राप्त होने के अनुसरण में, सीआईटी (ए) के उक्त आदेश के अनुसार, जिससे 10,893.30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी, कंपनी को निर्धारण अधिकारी, आयकर विभाग, नई दिल्ली से निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के प्रभाव के

संबंध में मांग का नोटिस प्राप्त हुआ है। मांग में वृद्धि मुख्य रूप से भूमि के मुल्यांकन के कारण हुई। कंपनी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के साथ स्टे आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। आईटीएटी द्वारा 19 दिसंबर, 2018, 2 जनवरी,2019 और 6 फरवरी, 2019 को मामले की सुनवाई की गई और 15 अक्टूबर,2018 के एनसीएलएटी आदेश के आधार पर, आईटीएटी ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देशों के साथ मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थिगित कर दिया। इसके अलावा, नवंबर 2018 में, सीआईटी (ए), नोएडा ने निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के लिए जर्माना आदेश पारित किया, जिसके आधार पर निर्धारण अधिकारी दिल्ली ने दिसंबर 2018 में 10,893.30 करोड़ रुपये का जर्माना लगाया। कंपनी ने आयकर ापीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के साथ एक स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दायर की। आईटीएटी ने मामले की सुनवाई 29 मार्च 2019 और 3 मई 2019 को की थी। आईटीएटी ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के साथ मामले को अनिश्चित का

के लिए स्थगित कर दिया है। 4. कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय द्वारा 21 मई, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलएटी) के पास दाखिल शपथपत्र के सन्दर्भ में 15 अक्टूबर, 2018 को कट–ऑफ तिथि (''कट–ऑफ तिथि'') प्रस्तावित की गयी। माननीय एनसीएलएटी ने अपने आदेश दिनांक 12 मार्च, 2020 के माध्यम से इसके संशोधनों सहित नये बोर्ड द्वारा प्रस्तुत संशोधित समाधान फ्रेमवर्क को मंजुरी दी। कथित आदेश में माननीय एनसीएलएटी ने कम्पनी की समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए 15 अक्टूबर, 2018 को कट-ऑफ तिथि के रूप में मंजुरी भी दी। तदनुसार कम्पनी ने 15 अक्टूबर, 2018 (''कट-ऑफ तिथि'') से प्रभावी अपने समस्त ऋण तथा उधारियों पर कोई ब्याज नहीं प्राप्त किया है।

खातों की पुस्तकों को फिर से खोलना, गंभीर धोखाधडी जांच कार्यालय ('एसएफआईओ') और अन्य नियामक एजेंसियों द्वारा जांच और ग्रांट थॉर्नटन इंडिया एलएलपी द्वारा फोरेंसिक जांच, जो कुछ समृह संस्थाओं के लिए प्रक्रिया में है, का कंपनी के वित्तीय विवरणों / संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पडा है।

कंपनी को 4 अक्टबर, 2021 को नोएडा से अंतिम मांग सचना दिनांक 30 सितंबर, 2021 प्राप्त हुई, जिसमें नोएडा ने इसकी प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर कंपनी द्वारा देय 26.05 करोड़ रुपये की कथित मांग उठाई, जिसमें विफल रहने पर नोएडा डीएनडी फ्लाईंट के नोएडा साइड पर सभी विज्ञापन डिस्प्ले को हटाने की धमकी दी गयी। उक्त नोटिस की प्राप्ति पर, कंपनी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 4 अक्टूबर, 2021 को एक अंतरिम आवेदन दायर किया। कंपनी द्वारा दायर अत्यावश्यकता / उल्लेख पत्र के आधार पर, मामले को 26 अक्टूबर, 2021 को सुनवाई के लिए सुचीबद्ध किया गया था। कंपनी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नोएडा को सभी घटनाक्रमों की सुचना देने के बावजूद, नोएडा के अधिकारियों ने 14 अक्टूबर, 2021 को डीएनडी फ्लाईवे के नोएडा की ओर के सभी विज्ञापन डिस्प्ले अवैध रूप से हटा दिये।

प्तमय की कमी के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 26 अक्टूबर, 2021 को मामले को सुनवाई के लिए नहीं लिया गया था। कंपनी ने एक बार फिर 28 अक्टूबर, 2021 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तात्कालिकता का उल्लेख किया और मामले क ् नवंबर, 2021 को सुनवाई के लिए सुचीबद्ध किया गया और बाद में 1 दिसंबर, 2021 तथा 7 दिसम्बर, 2021 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया। इसके बाद, 9 दिसंबर, 2021 को, मामले का उल्लेख किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1! दिसंबर, 2021, 6 जनवरी, 2022 और 10 जनवरी, 2022 को सुना गया। 19 जनवरी, 2022 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर, 2021 को दायर अंतरिम आवेदन का निपटारा इस निर्देश के साथ किया कि कंपनी को 125 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह के भुगतान पर आउटडोर विज्ञापन देने की अनुमति दी जाएगी, जो कि कम्पनी द्वारा दाखिल 2016 के एसएलपी के परिणाम के अधीन है। सितंबर 2018 के दौरान, नोएडा ने डीएनडी फ्लाईवे के नोएडा साइड पर विज्ञापन से राजस्व के संबंध में 3.69 करोड रुपये की और लाइसेंस शुल्क के बकाया के लिए अतिरिक्त मांग (दिसंबर 2018 और अप्रैल 2019 के दौरान) कुल 4.76 करोड़ रुपये की मांग की थी। कंपनी ने नोएडा से अनुरोध किया था कि दोनों मांगों को स्थगित रखा जाए क्योंकि मामला नोएडा द्वारा मध्यस्थत

के लिए भेजा गया था और एनसीएलएटी के आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2018 मद्देनजर दी गई मोहलत के कारण कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। । नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी जिसे 11 मार्च, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था, भारत सरकार तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार 16 मार्च, 2020 से समस्त वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए तथा ''लॉक-डाउन'' एवं कर्फ्यू लगाने और राज्य से बाहर तथा भीतर यात्रा करने तथा कार्यालयों को बन्द करने के लिए विभिन्न उपाय/दिशा-निर्देश/निर्देश/आदेश जारी कर रही हैं। देश लंबे समय तक राष्ट्रीय लॉकडाउन से भी गुजरा है जिसने अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है।

अप्रैल 2021 में, जैसे ही आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे पुनर्जीवित हो रही थीं और व्यापार सामान्य संचालन फिर से शुरू हो रहा था, कोविड-19 की दुसरी लहर ने देश को प्रभावित किया और दुसरी बार सभी आर्थिक गतिविधियों को पटरी से उतार दिया। हालांकि पहली लहर के विपरीत दूसरी लहर की प्रतिक्रिया स्थानीयकृत कर दिया गया है। दूसरी लहर के दौरान, रा.रा.क्षे. दिल्ली और नोएडा में लगाए गए कर्प्यू के संयुक्त प्रभाव के कारण, 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त नौमाही के दौरान संचालन से राजस्व (विज्ञापन के लिए स्थान और कार्यालय की जगह देने से किराये की आय) पर एक महत्वपर्ण प्रभाव पड़ा है। हालाँकि, कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी बदलाव की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी. जिसका उसके व्यवसाय और वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड सकता है।

कंपनी ने इन अनिश्चित समय के बीच लचीलापन प्रदर्शित करना जारी रखा है और प्रबंधन का मानना है कि कंपनी के ऐतिहासिक प्रदर्शन और तरलता को देखते हए, कंपनी कोविड-19 से जड़े जोखिमों को कम करने में सक्षम होगी। 30 जन, 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान, कोविड-19 की दूसरी लहर और उसके बाद के लॉकडाउन/कर्फ्य के मद्देनजर कंपनी को देय लाइसेंसधारी शल्क पर राहत की मांग करने वाले लाइसेंसधारियों के अनरोध के अनसार, कंपनी ने कई अन्य पार्टियों क तरह सभी संबंधित अधिकारियों (एसडीएमसी/ईडीएमसी/नोएडा) के पास लाइसेंस शुल्क/राजस्व हिस्सेदारी में छूट/आस्थगन के लिए अनुरोध करते हुए को पत्र लिखा है और संबंधित अधिकारियों ने लाइसेंसधारियों को राहत देने पर विचार करने योग्य समझा था लेकिन अंतिम प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की गई थी। तदनसार, कंपनी ने उक्त लाइसेंसधारी शुल्क को मान्यता नहीं दी है और परिणामस्वरूप 30 जुन, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए एसडीएमसी/ईडीएमसी/नोएडा को देय लाइसेंस शुल्क/राजस्व हिस्सेदारी का प्रावधान

नहीं किया है। 8. कंपनी के पास एक ही व्यवसाय खंड है तथा इसलिए खंड-वार जानकारी का विवरण लागु नहीं है।

9. उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी, नेशनल स्टॉक एक्सचैंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईटों क्रमशः www.ntbcl.com, www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

10. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि के आंकड़े पुनर्समुहीकृत/ पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं। स्थान : नोएडा

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर सं तिथि : 11 फरवरी, 2022

न्यू लाइट एपैरेल्स लिमिटेड

क्षीकृत सम्मानमः । केंग्री-29, बेसबेट, सिमानी एव्यानेय, राज मार्थन, नई डिल्को-112027, केंग्यामानः । (91)-11-45612885

31 दिसम्बर, 2021 को समाज दिमाही/अधिक के स्टैक्डएलोन असेखाक्सीक्षित करिणामी का विवरण

							(म. हजा वें
20	ferre:	District of the last	मक्ता रिक्स	- ALLENS	1971	प्रमाण वर्ष	
*		३९.१2,3021 (जलेक्क्सोक्क)	30.09.2021 (univarietta)	३९,१३,३१३० (शरी पारशिका)	31322021 (withwolfer)	31.12.2020 Confrarefular :	21,852021 (New War)
1	ज्ञालनी से तत्त्व			P (4) (6)	VIVE SE		
	दशानी से गिमन विश्वीताल	16.60/1.25	34309035	350305-40	45,006,50	100,101/10	190,040.20
	20-15 dat	4.00	SSOUTH	5,50	1.00	8.50	1546
	- In	14,441.28	34,000.00	340,489.MI	48,008.80	183,138.07	176,049-49
h	ort	20,000	1000		7133300	25000	-905755
	(%) व्यापा में शर्तक भा इन	252(4)89	12,434.65	160,403,18	40,500,83	172,464,71	761,621.51
	(क) म्यापीत पात की शर्मदे में (म्यात),मारत	3,815,95	90,000,20	\$18381	10,674,16	6,517,00	4,044,37
	্ব) কৰ্মাই লগ নাম	493.92	+10.00	474.at	1,816.20	1,374,61	3,101.11
	(%) पुल्यात एवं पर्शाद्वित्तेषव २००	114.71	111.07	19.41	312.60	456.01	868.71
	(জ) হৈন্দ্ৰৰ প্ৰচাৰ	436.55	245.55	765.15	FR.ACE, F	1,972,27	2,626.57
	(K) SH NE	176.76	199.27	153270	394.76	1.816,77	4,707.00
	Aus.	36,111,66	23,715.75	163,401.11	34,021.40	100,267.16	179,389,53
Ī	अन्तरित भरी शरा कर में कृषि शरा प्रशानने से नंदर्भ होते।	59/45/5/	- 0-	TO MANUTURNIS	11.00.000		903535
	(14)	9.852.25	990.99	127/043	F.615.NI	(4,10129)	201.10
Ú,	संनगरित गरें (समान सर्टेश्टर्व की विकार में लाग)	+		+			-
Ī	का पुत्र बाध प्रकारते से संप्रदा्त्रको। १५-४)	19,612.21	19033	(3,733.94)	-9,818,96	(4,111.70)	281.53
	W1 7091	-2.500(89)	199.05	(683.56)	-0.504 TH	C1.005.913	71.36
	कार कारतने से जिसस अच्छा (इन्छ) (इन्छ)	-7,16147	735,79	(3/949/12)	-7,118.01	(3,04484)	304.07
	श्रम अभ्यक्त कार्य a. राज्य एवं शर्मि के विकास में आस्ट्रेक्ट मार्टे a. जन नद ना जा निर्मे अन्य और शर्म निरम्भ में पुनर्शनीकार	-	-	-	-	-	-
	शी विधा करेच				1.00		-
	at the case of the copyright and the robe	. 0	1	12			-
	Ar. पर मही में अमेरिय कर किये तरक एवं हरिय में करिया नहीं						
	New votes	-		-	- +	-	-
ī	कुल रुवारक तार (१-४)	-1,16142	738.79	(3,949.10)	-7,116.81	15(04686)	304.47
ġ.	प्रदेश रविवार्त चेवर गूनी (च. १५५- प्राचेश का प्रविद्यार्ग तीवर)	23.No.50	11,940.00	21,765.70	31,060,76	21,563,90	25/90530
1	अन्य प्रीवरते		-	1000000		-	
2	बाब प्रति जेवर (म. ६८० इस्तेक का जीवर मृत्य) अन्तर्वादेश भट्ट से पूर्व प्रता प्रकारक में अप चारि तेवत (पर्वतिकेत्य वर्षी) (म.) चंदिता (म.) चंदारत्वीय	(3.28) (3.29)	033	(6.93)	(334)	(1.41)	0.10

ज् लाइट एपेंग्स सिविटेड के विदेशक बढ़त के लिए बक्त उनकी और वे

स्थान । नई दिल्ली faffe + 10.02.2022 प्रथम निदेशक (ग्रीकाइंग्स्ट : ०१११३४२३)

सनल्यूब इंडस्ट्रीज लि. **♦ CENLUB**

कॉपोरेट पहचान संख्याः L67120HR1992PLC035087 प्लाट नं. 233-234, सेक्टर-58,बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004, (हरियाणा) फोन नं.:91-8826794470-73, फैक्स : 91 (0129) 2307263 वेबसाईटः http://www.cenlub.in, ई-मेलः investors@cenlub.in 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के स्टैण्डएलोन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

(रु. लाखों में)

क्र.	विवरण		समाप्त तिमार्ह	ì	समाप्त	नौ महीने	समाप्त वर्ष
सं.		31.12.2021	30.09.2021	31.12.2020	31.12.2021		31.03.2021
		(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)
1	प्रचालनों से कुल आय	1,261.58	1,664.31	1,446.48	3,653.59	2,846.24	4233.01
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, असाधारण मदों से पूर्व)	101.89	354.42	197.08	488.83	300.47	576.43
3	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर से पूर्व, असाधारण मदों के पश्चात)	101.89	354.42	197.08	488.83	300.47	576.43
4	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर, असाधारण मदों के पश्चात)	76.25	265.21	149.78	365.79	227.15	401.27
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल)	79.01	263.29	150.78	368.56	229.47	411.93
6	इक्विटी शेयर पूँजी	466.29	466.29	466.29	466.29	466.29	466.29
7	प्रति शेयर आय (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरूद्ध प्रचालनों के लिये)						
	मूल :	1.64	5.69	3.21	7.84	4.87	8.61
	तरल :	1.64	5.69	3.21	7.84	4.87	8.61

- 1. उपरोक्त अनंकेक्षित परिणामों की ऑडिट किमटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 12 फरवरी, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की कम्पनी के सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई है।
- 2. कम्पनी के इन वित्तीय परिणामों को कम्पनी भारतीय लेखा मानक नियमावली, 2015 के नियम 3 कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियमावली, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुपालन में कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) के अनुसार तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015, सेबी सर्क्यूलर तिथि 05 जुलाई, 2016 तथा भारत में सामान्य रूप में स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धातों के अनुसार तैयार किया गया है।
- 3. कम्पनी के स्टैण्डएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाईट (www.cenlube.in) तथा बीएसई की वेबसाईट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध हैं।

सेनल्युब इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये

स्थानः फरीदाबाद

तिथि: 12 फरवरी, 2022

बिरेन्द्र कुमार गुप्ता कार्यकारी निदेशक (DIN:00006461)

रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व की रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) सीआईएन: L72900DL2012PLC244966

पंजीकृत कार्यालय : एम-140, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली -110048, भारत

31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही और नौमाही के लिए अलेखापरीक्षित

समेकित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश

(रु. मिलियन में, शेयर डेटा और यदि अन्यथा कथित हो, को छोडकर

	समाप्त तिमाही		समाप्त	समाप्त वर्ष	
31 दिसम्बर, 2021	30 सितम्बर, 2021	31 दिसम्बर, 2020	31 दिसम्बर, 2021	31 दिसम्बर, 2020	31 मार्च, 2021
अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1006.98	877.77	654.91	2691.26	1855.84	2640.91
990.09	847.64	629.12	2587.14	1791.64	2507.93
13.24	(13.79)	(113.21)	(6.08)	(216.69)	(246.28)
4.19	(13.79)	(113.21)	(15.13)	(216.69)	(246.28)
0.85	(18.95)	(111.42)	(31.91)	(227.4)	(285.75)
(14.96)	(24.71)	(103.6)	(45.93)	(227.23)	(278.95)
106.76	78.61	6.55	106.76	6.55	6.55
	-	-		-	
0.01 (वार्षिकीकृत नहीं)	(0.20) (वार्षिकीकृत नहीं)			(2-49) (वार्षिकीकृत नहीं)	(3.09) (वार्षिकीकृत)
0.01 (वार्षिकीकृत नहीं)	(0.20) (वार्षिकीकृत नहीं)			(2.49) (वार्षिकीकृत नहीं)	(3.09) (वार्षिकीकृत)
	2021 अलेखापरीक्षित 1006.98 990.09 13.24 4.19 0.85 (14.96) 106.76	31 दिसम्बर, 2021 अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित 1006.98 877.77 990.09 847.64 13.24 (13.79) 4.19 (13.79) 0.85 (18.95) (14.96) (24.71) 106.76 78.61	31 दिसम्बर, 2021 30 सितम्बर, 2020 अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित 1006.98 877.77 654.91 990.09 847.64 629.12 13.24 (13.79) (113.21) 0.85 (18.95) (111.42) (14.96) (24.71) (103.6) 106.76 78.61 6.55	31 दिसम्बर, 2021 30 सितम्बर, 2020 2021 30 सितम्बर, 2021 30 सितम्बर, 2020 2021 30 सेलेखापरीक्षित 30 सेलेखापरीक्ष्य 30 सेलेखापरीक्षित 30 सेलेखापरीक्षित 30 सेलेखापरीक्षित 30 सेलेखापरीक्ष्य 30 सेलेखापरीक्ष्य 30 सेलेखापरीक्ष्य 30 सेलेखापरीक्य 30 सेलेखापरीक्ष्य 30 सेलेखापरीक्य 30 सेलेखापरीक्ष्य 30 सेलेखापरीक्ष 30 सेलेखापरीक्ष 30 सेलेखापरीक	31 दिसम्बरं, 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2021 2020 2021 20

1. 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त उपर्यक्त तिमाही तथा नौमाही समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा तथा संस्तति लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी और निदेशव मण्डल द्वारा 11 फरवरी, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित की गयी। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथ

नौमाही हेतु कम्पनी के वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की है। 2. 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु अपवादित मद शेयर सूचीबद्धता व्ययों के कारण 9.05 मिलियन है।

3. उपर्युक्त जानगारी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के तहत कम्पनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ दाखिल अलेखापरीक्षि वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। उपर्युक्त वित्तीय परिणों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com तथ www.nseindia.com) और साथ ही कम्पनी की वेबसाइट www.rategain.com पर उपलब्ध है।

4. 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतू कम्पनी के अलेखापरीक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है :

विवरण		समाप्त तिमाही		समाप्त	समाप्त वर्ष	
	31 दिसम्बर,	30 सितम्बर,	31 दिसम्बर,	31 दिसम्बर,	31 दिसम्बर,	31 मार्च,
	2021	2021	2020	2021	2020	2021
	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
कुल आय	258.51	242.4	248.01	765.07	621.63	846.63
प्रचालनों से आय	188.02	175.54	194.93	537.93	503.24	678.93
कर पूर्व निवल लाभ	(5.13)	7.25	25.6	17.45	49.68	63.52
कर पश्चात निवल लाभ	(4.41)	4.25	22.97	10.77	35.61	41.02
- A	1			निदेश	क मंडल के लिए	तथा उनकी ओर

रेटगेन टैवल टेक्नोलॉजीज लिग्

(रु. मिलियन में. शेयर डेटा और यदि अन्यथा कथित हो. को छोडक

स्थान : दिल्ली तिथि : 11 फरवरी, 2022 (चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशव

निदेशक